



मुंबई के चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सहि धोनी

ने आईपीएल के दूसरे क्वालीफायर में शुक्रवार रात यहां किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों 24 रन की शक्ति के बाद कहा कि सुरेश रैना ने उन्हें जैसी तरह की शुरुआत दलाई थी उसे देखते हुए उनकी टीम इस लक्ष्य को हासिल कर सकती थी

रैना ने सिर्फ 25 गेंद में 12 चौकों और छह छक्कों की मदद से 87 रन की पारी खेली जिससे टीम सिर्फ छह ओवर में 100 रन बनाने में सफल रही थी रैना हालांकि रन आउट हो गए जिसके बाद टीम कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में नहीं देखी और पंजाब के 227 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम सात विकेट पर 202 रन ही बना सकी

धोनी ने मैच के बाद कहा, “सुरेश रैना ने जैसी तरह से बल्लेबाजी की उससे हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते थे लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए हमने बीच में ओवरों में काफी विकेट गंवा दिए ”

{loadposition user13}

धोनी ने कहा कि उन्होंने वेस्टइंडीज के डेवोन ब्रावो को रटिन किया था लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत में ही उन्हें गंवाने का नुकसान उठाना पड़ा चेन्नई के कप्तान ने कहा, “हमने अपना रटिन किया हुआ खिलाड़ी टूर्नामेंट की शुरुआत में ही गंवा दिया लेकिन इसके बावजूद हम प्ले ऑफ में जगह बनाने में सफल रहे हमने टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेल दिखाया ”

धोनी अपने गेंदबाजों से नाराज देखे और उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, “मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था कि वे उन्हें 200 रन से अधिक बनाने देंगे ”

गौरतलब है कि चेन्नई को मौजूदा टूर्नामेंट में तीनों बार पंजाब के हाथों शक्ति का सामना करना पड़ा जबकि इस दौरान वरिधी टीम तीनों बार 200 से अधिक रन बनाने में सफल रही दूसरी तरफ किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान जॉर्ज बैली ने जीत का श्रेय वीरेंद्र सहवाग को दिया जिन्होंने 58 गेंद में

122 रन की पारी खेली

बैली ने कहा, “वीरू ने शानदार पारी खेली। उसने मंच तैयार किया और अंत में डेविड मल्लिन ने भी उम्दा योगदान दिया। सुरेश रैना की पारी लगभग हावी हो गई थी। हमने आज दो असाधारण पारियां देखीं।”

(भाषा)